



आर्योदय ARYODAYE



LET US
LOOK AT
EVERYONE
WITH A
FRIENDLY
EYE

- VEDA

Aryodaye Weekly No. 262

ARYA SABHA MAURITIUS

12th Jan. to 19th Jan. 2013

Propageons L'éducation dans notre entourage pour vaincre l'ignorance

Om ! Kétum krinvannakétavé, pesho maryā apeshassé.
Samushadbhirajāyathāha.

Rig. Vēda 1.6.3

Hé maryāha - O les êtres humains, **Akétavé** - Pour les personnes qui ne sont pas éduquées ou instruites, des illettrés, des individus ignorants et sans culture, **Kétum** - L'éducation, le savoir, l'instruction, la connaissance, **Krinvan** - en propageant ou en instruisant, **Apeshassé** - ceux qui ne sont pas éduqués ou qui n'ont pas de formation, **Peshaha krinvan** - les éduquer, les instruire, les former, c'est-à-dire, façonner par l'instruction, les entraîner et les inculquer une code de conduite, Ushadbhiha : dès l'aube, **Sam ajāyathāha** - vous êtes nés pour accomplir cette tâche.

"Yajopavit" (Janew) ou "la corde sacrée" comprend trois brins de fil qui nous rappellent nos trois dettes à honorer envers le Seigneur, en d'autres mots, nos trois devoirs sacrés à accomplir durant notre vie

1ère dette - "Rishi Rinne" Etre redevable d'abord par l'acquisition de l'éducation et puis par sa propagation parmi les autres.

2ème dette - "Dev Rinne" - En honorant cet engagement par la prière, le yajna, le yoga, la discipline, le dévouement, la méditation.

3ème dette - "Pitri-Rinne" - C'est notre devoir envers nos parents âgés ou malades. On s'acquitte de cette dette en s'occupant d'eux en leur donnant l'attention, l'affection et les soins-nécessaires et aussi en pourvoyant à tous leurs besoins quotidiens.

Par le truchement de ce mantra, mentionné plus haut, on a mis l'emphase sur "Rishi Rinne" ou "Brahma Rinne" et comment s'acquitter de cette dette.

On y arrive par l'étude profonde des Védas et des livres sacrés qui ne sont écrits que par de grands sages ou rishis d'antan, et en éduquant les ignorants, les personnes illettrées et sans culture afin de les transformer en des hommes sages, des élites, des hommes de lettres, des humanistes, des hommes de génie, des savants ou de grands hommes d'état.

C'est le devoir sacré qui incombe aux élites de promouvoir l'éducation dans leur entourage.

Mention est aussi faite dans ce mantra que l'homme est né avec l'aube et doit agir comme tel pour éliminer l'ignorance.

Tout comme l'aube répand la lumière, chasse l'obscurité de la nuit et étale devant nous la nature dans toute sa beauté et sa splendeur, de la même façon tous ceux qui sont éduqués ont le devoir sacré de dissiper les ténèbres de l'ignorance en propageant l'éducation pour faire resplendir la magie ou les merveilles du savoir.

N. Ghoorah

An Overview of the D.A.V Degree College

Dr Oudaye Narain Gangoo, OSK, Arya Ratna

The D.A.V Degree College, run under the aegis of the Arya Sabha Mauritius in collaboration with the Maharishi Dayanand Institute, has reached its fifth year of existence. In 2007 a Memorandum of Understanding was signed between Kurukshetra University and the Arya Sabha. The MoU was valid for a period of five years. It came to an end on 20th December 2012 and has been extended for another five years.

A couple of years back the Kurukshetra University was ranked 29th in a poll carried out by the prestigious magazine "India Today" with a view to establishing the fifty top universities of India. It is situated on the land of Kurukshetra, where the battle of the Mahabharata was fought.

The beginning

The D.A.V Degree College opened its doors in 2008 with thirty students on its roll eager to pursue courses in English, Hindi, Sanskrit, Indian Philosophy and Western Philosophy leading to a B.A General Degree.

It was a full time course meant to last for three years. Owing to their sense of commitment and dedication, all the students succeeded in their annual exams year after year and finally they completed their B.A successfully. They were guided in their studies by a team of hardworking and conscientious lecturers.

First Graduation Ceremony

The first graduation ceremony was held in the month of September 2010 at the Octave Wiehe Auditorium, Réduit. The Chief Guest on that occasion was Professor Ramprakash, Member of Parliament, Haryana, India. Dr. the Hon. Vasant Kumar Bunwaree, Minister of Education and Human Resources, Dr. the Hon. Rajeshwar Jeetah, Minister of Tertiary Education, Research and Technology and Professor Soodursun Jugesur, D.S.C, C.S.K, G.O.S.K, Pro Chancellor, University of Mauritius, were the special guests. Besides the graduands and their parents, a good number of eminent personalities also graced the ceremony by their presence. That ceremony was held in a very solemn atmosphere.

cont. on pg. 2

सम्पादकीय

दिनचर्या का महत्त्व

हमें अपना दैनिक जीवन व्यतीत करने के लिए दिनचर्या पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है। दिनचर्या अर्थात् दैनिक योजना की पूरी तैयारी करने पर ही हम नियमित तरीके से अपना दिन गुज़ार सकते हैं। हर पल, हर घड़ी का सदुपयोग करने में सफल हो सकते हैं।

योजना-बद्ध जिन्दगी गुज़ारना मनुष्य का परम कर्तव्य होता है। प्रातःकाल से सायंकाल तक अपने कार्यों की अच्छी व्यवस्था करने वाला व्यक्ति सदा उन्नतिशील होता है। हमारी दिनचर्या का प्रारम्भ सूर्योदय के साथ होता है। प्रातः से लेकर रात्रि में शयन तक के क्रिया-कलापों की दिनचर्या सूर्योदय के साथ आरम्भ होकर सूर्यास्त तक सीमित रहती है।

स्कूलीय छात्रों की दिनचर्या स्कूल की दैनिक गतिविधियों के अनुकूल होती है। सवेरे उचित समय पर प्रवेश, फिर कक्षा में अनुशासित वक्त का पालन दिन में आहार-विहार, मनोविनोद, व्यायाम आदि कार्यक्रम और छुट्टी इत्यादि का समय विभाजन घर वापस आने पर अभ्यास कार्य और आराम का वक्त। इसी प्रकार कर्मचारियों की दिनचर्या उनकी नौकरी के अनुकूल पूर्व गठित होती है, जिसे निभाना उन्हें उचित होता है। वृद्ध जनों की दिनचर्या भी उनकी आयु, परिस्थिति और गतिविधि से संबद्ध होती है। इन सब प्रमाणों से यही मालूम होता है कि बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक दिनचर्या के आधार पर जीव का बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है।

विश्व में बहुत से योगी, साधक, ईश्वर-भक्त और चतुर आदमी सूर्योदय से पूर्व ब्रह्ममुहूर्त में जाग जाते हैं। वे उस अमृत बेला में विस्तर त्याग कर आत्म-कल्याण निमित्त प्राणायाम, ध्यान योगाभ्यास, स्वाध्याय, चिन्तन आदि कर्म निभाने में सफल होते हैं। इस प्रकार के साधक एवं तपस्वी व्यक्ति मानव समाज में अग्रगामी होते हैं।

दिवाचरों की तरह निशाचरों की भी रात्रिचर्या होती है। उनकी रात्रिचर्या रात्रि के आगमन के साथ आरम्भ होती है और रात्रिगमन से पूर्व अर्थात् सुबह होने से पहले समाप्त हो जाती है। वे वक्त के अनुसार अंधेरे में बड़ी चतुराई के साथ बखूबी किया कलाप करते हैं। अन्धकार का फायदा उठाकर दिवाचरों को कष्ट पहुँचाते हैं। जिन प्राणियों को घोर कालिमा में कुछ दिखाई नहीं देता है, उन्हीं को हानि पहुँचाते हैं। वे मनुष्य और अन्य दिवाचरों के महा शत्रु माने जाते हैं।

रात के अन्धेरे में देखने वाले सभी जीव अपनी रात्रिचर्या के आधार पर ही अपने कारोबार करते हैं। रात्रिकाल को नियमित ढंग से बिता देते हैं। जब दिन में जागने और रात में सोने वाले प्राणी नींद में रहते हैं तो वे अपने धंधे शुरू करते हैं और सवेरा होने से पहले लुप्त हो जाते हैं। यद्यपि उन्हें सेकण्ड, मिनटों और घण्टों का ज्ञान नहीं फिर भी वे भोर की बेला से पूर्व अपना कार्य निपटा लेते हैं। अतः निशाचरों के लिए भी रात्रिचर्या बड़ी महत्वपूर्ण होती है।

हम मनुष्य हैं। परमात्मा ने हमें समय परखने का ज्ञान दिया है। हमें सदा समयानुकूल अपने कार्यों को विभाजित करना चाहिए और अच्छी दिनचर्या तैयार करके उसे निभाना भी चाहिए, तभी हम समय की गति अनुसार गतिमान बनकर उन्नत होते जाएँगे। यह हमेशा ध्यान रहे कि समय कभी किसी का इन्तज़ार नहीं करता है और न कभी करेगा। वह अपनी गति अनुसार बराबर सरदी या गरमी में दिवानिश आगे बढ़ता जा रहा है। दिन, सप्ताह, महीने, साल-दर-साल गुज़रते जा रहे हैं, अगर हम समय का सदुपयोग किये बिना अपना अनमोल जीवन योंही व्यर्थ गवाँते जाएँगे तो नूतन वर्ष हमारे लिए कोई महत्व साबित नहीं होगा। समय बढ़ता जाएगा और हम पीछे रह जाएँगे।

साल २०१३ का शुभारम्भ तो खराब मौसम से हुआ। तूफानी स्थितियों में दो व्यक्तियों की जाने भी गई। कई लोगों को अनेक कष्ट भी झेलने पड़े। मकर संक्रान्ति पर्व भी गुज़र गया। नियमित रूप से समय आगे बढ़ता जा रहा है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि हमारे देश का जलवायु हमारे अनुकूल हों। हमारा जीवन मंगलमय हों। हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्र में प्रगतिशील होते जाएँ। हमारी सुयोजित दिनचर्या और विचारयुक्त परियोजना के माध्यम से हम समय के साथ कदम आगे बढ़ाते जाएँ। हम अवश्य ही आगामी नूतन वर्ष का स्वागत बड़े हर्षोल्लास के साथ करने में सफल होंगे।

बालचन्द तानाकूर

cont. from pg. 1

Twenty-seven students were awarded their B.A Degrees while eight students received their M.A degrees in Hindi.

In the years that followed, that is, in 2011 and 2012, the graduation cer-



monies were held at the seat of the D.A.V Degree College. A good number of candidates received their B.A (Hons) and M.A Degrees. Diplomas were also awarded to students of Theology.

Contribution of well-wishers and benefactors

A host of well-wishers and people who have at heart the advancement of learning in Mauritius are coming forward to offer their help for the smooth running of the D.A.V Degree College. Mrs. Koolwatee Jhummon made a donation of two hundred and ten thousand rupees to equip the college library, whereas Mr. Savji Sunderji Vaghela, for his part, donated five hundred and twenty thousand rupees to improve the computer lab. Dr. Hansa Guneseer generously do-

nated a considerable sum of money which enabled us to extend the building of the college with ten classrooms.

Several persons are helping needy students by granting scholarships. Professor Soodursun Jugessur has been associated with this college since its

first graduation ceremony. A few days back he donated the sum of a hundred thousand rupees to the D.A.V Degree College. The sum will be kept in fixed deposit and the interest derived therefrom annually will be spent to award a shield to the best student of M.A Hindi in the name of Shri Ramkreet Jugessur.

Shri Ramkreet Jugessur was the cousin of Professor S. Jugessur. Besides being a Head teacher, he was an enthusiastic advocate of Hindi. He zealously taught this language.

This award comes as a humble tribute to the late Shri Ramkreet Jugessur and will enable people to remember his efforts towards the propagation of Hindi in Mauritius.

The Arya Sabha Mauritius expresses its grateful thanks to all those who are contributing in one way or the other to the smooth running of the D.A.V Degree College.

नववर्ष के अवसर पर वैदिक वाणी में प्रधान का सन्देश

श्री हरिदेव रामधनी, आर्य रत्न

नववर्ष वह अवसर होता है जब हर कोई बड़ी आशा से आगे देखता है कि आने वाला वर्ष या समय उनके लिए सुखमय, शान्ति एवं समृद्धिवर्धक हो। इसी भावना से, साल के अन्तिम पक्ष या सप्ताह में हम अपने हित-मित्रों एवं घनिष्ठ लोगों के पास नव वर्ष की कामना 'Card' द्वारा e-mail द्वारा या फ़ोन द्वारा भेजना शुरू कर देते हैं। नव वर्ष की पूर्व रात्रि में तो SMS की इतनी आवा-जाही होती है कि क्या कहें? भावना यही है कि हम हर किसी की भलाई ही चाहते हैं।

वेद जो ईश्वरीय ज्ञान है, उसमें मानव तो क्या पूरे संसार के सुख, शान्ति एवं समृद्धि का अपार ज्ञान पड़ा हुआ है।

आज इस अवसर पर प्रभु के उस अपार-ज्ञान भण्डार से एक मन्त्र आपके सामने रखना चाहूंगा।

ओ३म् उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्यज्ञेन बोधय। आयु-प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय।

इस मन्त्र में उस परम कृपालु एवं दयालु परमेश्वर का आदेश है कि हे मानव तू चाहे तो इस संसार में हर प्रकार के सुख और समृद्धि पा सकता है।

मन्त्र के प्रारम्भ में आया है -

उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते

ब्रह्मणस्पते के कई अर्थ हैं जिनमें से एक है ज्ञान (अर्थात् वेदज्ञान) अन्न, यज्ञ एवं मान के स्वामी। ईश्वर ने हर मनुष्य को इन गुणों को प्राप्त करने की शक्ति और अधिकार दिया है।

अतः वे आदेश देते हैं कि ब्रह्मणस्पते उत्तिष्ठ - अर्थात् तू जाग और उन्नत हो। मगर कैसे?

तो आगे वेद कहता है - **देवान्यज्ञेन बोधय** - अर्थात् तू देवों को यज्ञ के द्वारा जगा। दूसरे शब्दों में तेरी सफलता तेरे यज्ञों से ही सम्भव है। तू अपने यज्ञ से देवों को जगा।

यहाँ फिर देव शब्द को समझना आवश्यक है। यहाँ देव का अर्थ है

दिव्यभावों का - अर्थात् तू अपने अन्दर प्रसुप्त दिव्य भावों को जगा।

हर मनुष्य के भीतर दिव्यगुण और उत्तम भावनाएँ विद्यमान हैं। इनको जाग्रित किये बिना मनुष्य उत्कृष्ट कभी नहीं बन सकता।

मनुष्य जाग्रत अवस्था में भले और बुरे दोनों प्रकार के कर्म करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि तू इन्हें यज्ञ के द्वारा जगा।

बहुत से लोग प्रश्न करेंगे कि क्या यज्ञ अर्थात् जो अग्निहोत्र करते हैं इसी से यह सब कुछ हो सकता है? हमें यज्ञ के भौतिक स्वरूप को ही नहीं लेना चाहिए। यज्ञ के हर कर्म प्रतीकात्मक है और हमें हमारी उन कर्तव्यों की याद दिलाता है जिससे हम अपने मन, कर्म और वचन को शुद्ध और श्रेष्ठ बना सकते हैं।

यज्ञ करते समय, यज्ञकर्ता किसी को न चाहते हुए भी वह सबका उपकार करता है। अर्थात् यज्ञ सर्वहितकारी कर्म है और यही वैदिक धर्म की आत्मा है।

मनुष्य को चाहिए कि वह उन सब कर्मों को करे जिससे अपने साथ सबका लाभ हो। इस तरह परोपकार, लोकोपकार और जन सेवा से हमारे दिव्य गुणों और भावों का विकास होगा। ऐसे सभी कर्मों को भी यज्ञ कहा गया है। आगे मन्त्र कहता है :-

आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय।

यज्ञ का फल आयु की वृद्धि है।

मनुष्य उत्पन्न हुआ और प्रौढ़ता प्राप्त किये बिना मर गया, तो क्या लाभ? न वह अपना कुछ कर सका और न किसी का बना सका। अतः याज्ञिक व्यक्ति के जीवन में अनुशासन होता है और हमेशा पवित्र कर्मों की ओर प्रभावित होता है, अतः अवश्यमेव उनका जीवन दीर्घ होगा।

आयुः प्राणं - आयु के बाद प्राण - आयु लम्बी हो, पर स्वास्थ्य ठीक न हो तो आयु किस काम की। अतः याज्ञिक व्यक्ति के आहार, व्यवहार पवित्र होने से उनके प्राण भी शक्तिशाली होते हैं।

शेष भाग पृष्ठ ३ पर

MASTER RAMKREET JUGEESUR Life of a Champion of Hindi Language

Professor Soodursun Jugessur, CSK, GOSK



Born on the second decade of the last century, more precisely on 29.12.1912, in the village of Bon Accueil, Flacq, Master Ramkreet Jugessur was the

only son of Shree Ramlall Jugessur and nephew of Shree Motilall Jugessur, the Founder President of the Bon Accueil Arya Samaj, whose influence was very great on him. Of humble origins, he had to toil to educate himself and become the first government school teacher in the locality.

He was deeply influenced by the missionary work of Swami Vijyanand and who stayed in Mauritius in the early days of Arya Samaj struggle in the country. With the impetus of this Arya Samaj movement, he became a student of Late Soogrim Bissoondoyal, and later of Basdeo Bissoondoyal to pursue Matriculation studies, and higher studies in Hindi and Sanskrit, without having to pay any tuition fees. As he could not often afford the bus fare back home from Port Louis, he had to spend the nights in the home of the Bissoondoyals in St. Denis Street, and was strongly influenced by the teachings of those stalwarts. He even joined the first batch of Swayam Sevaks, donning the khakhi trousers and wielding the 'lathis', a group that militated to give the Hindus a sense of pride in their ancestry and a sense of commitment to serve their society. It is to be noted that one of the first sermons of the Pandit was held in the plot of land where now stands the old house of Shree Ramkreet Jugessur.

Mahatma Gandhi once said: 'Perhaps my poverty itself was the cause of my good actions.' This applies equally to Master Ramkreet who changed the lives of so many. His family had to struggle very hard to educate the children. When Ramkreet was still a young student, he experienced the pangs of extreme poverty. Yet his ardent desire to study and improve himself goaded him on the path of 'swadhyaya' and progress. On two occasions he had to walk all the way from Port Louis to Bon Accueil, a distance of fifteen miles, after finishing his tuition in the evening. He often had to help his parents in the field, and during lunch time, go through his books under a tree. Sometimes, while returning home with a bundle of grass for fodder on his head, he used to glance through his notebooks even while walking! He used to read his books even when he had to take the family horse for grazing! Hence it was no small feat when he passed the Teachers' examination and was recruited as a Government teacher. Such an example of perseverance and dedication should be eye-openers for the present generation often spoilt by the parents.

After his studies at the Bissoondoyals, he passed his Teachers' Certificate Examination, and got employed at no pay at Dabydeen Rittoo School. After about six months he was granted a salary of nineteen rupees fifty (Rs.19.50) per month, which was a great help to the family living from hand to mouth. It is at this time that Swami Vijyanand visited and stayed at their place. He was particularly impressed by the dedication of the family to the Arya Samaj, and the aptitude of Ramkreet, and requested the family to allow him to take the young man to India for higher studies. Passport was acquired,

but fate had other plans for the young man! The parents realized that he was the only male child in the family with an education that enabled him to have a salary that was of such great help to them. So he stayed behind to pursue his studies locally. Later on, while working, he passed the Matriculation examination.

But his earnest desire was to educate and empower the people through formal education and in the path charted by Rishi Dayanand Saraswati. The Bon Accueil home was often the host of Swamis and Sanyasis visiting Mauritius in the first half of the century. Swami Dhruvanand Saraswati, known for his organizational capacity and immense efforts to bring unity amidst the different Arya Samaj factions, and for his ability to select capable and dedicated people in the movement, inducted him amidst the Executive members of the Arya Sabha, and he became the first Secretary of the then newly founded Arya Sabha in the fifties.

Besides his western education in government schools, Ramkreet Jugessur had a very deep interest in Hindi and Sanskrit languages, which enabled him to study and master the Vedic literature that formed the bedrock of the Arya Samaj movement. Because of his erudition people used to come from far and wide to take private lessons in preparation for the Cambridge Junior and Senior School Certificate examinations, and also in Hindi and Hindi literature for the various Hindi examinations of the day. It is thanks to him that many young men became Hindi and General Purpose teachers, lawyers, doctors and even judge (Judge Ramparsad Proag), and who later on shone in their own areas. Amongst them are Seetulparsad Proag, Guruji Thakoor, and Soomairejeet Sungkur from Lalmatee, Radhakissoons from Laventure, the Khadaroos from Flacq, and so many others. He is especially remembered for his immense contribution to the propagation of Hindi during those days. Dozens of highly respected personalities who became the promoters of Hindi are still alive, and they were once his students.

At one time, he set up a debating society called the Vad Parishad, with Shree Gautam Teeluck as President and himself as Secretary. This society used to hold monthly debates in Hindi on current topics, and attract many young Hindi enthusiasts of the day, from all over the country. Gautam Teeluck later on became a member of parliament and Parliamentary Secretary. So did Wahab Foondun, his very close friend. He participated in Village Council elections and served as secretary.

But his greatest contribution was in promoting the teaching of Hindi, for which he was known all over the island.

When Professor Ram Prakash who came as an expert on Indian culture, started his oriental language education campaign, he enlisted the strong support of Shree Ramkreet Jugessur in whom he had found a capable Hindi writer and speaker. In a national examination in Hindi that he conducted, Shree Ramkreet Jugessur topped the list in the whole island! His knowledge of Hindi grammar and his eloquence in the language were exceptional.

Master Ramkreet Jugessur was married to Shrimati Vidyotama Jugessur, daughter of Pandit Ramkissoo of Riviere des Anguilles, and was the father of eight well educated children, some in Mauritius and others settled in England.

cont. on pg. 3

cont. from pg. 2

Mr. Vedmitra Jugessur, President of Belle Rose Arya Samaj, and Dr. Vishwamitra Jugessur and Dr. Dharmamitra Jugessur are amongst them. He was also responsible for educating his cousin, son of Shree Motilall Jugessur, who is Professor Soodursun Jugessur, Pro-Chancellor of the University of Mauritius, and Chairman of the Mauritius Research Council. Master Ji passed away in 1984, but has left an indelible imprint in the field of education and especially Hindi education in Mauritius. He is survived by his spouse Mrs Vidyotama,

now 92 years old, who has been a staunch supporter of the Arya Mahila Samaj.

It is time to honour such a distinguished son of the Mauritian soil, lest the sands of history cover the achievements in their onward march to posterity. As the English poet Shelley says: 'Full many a gems of purest ray serene are born to blush unseen and waste their sweetness in the desert air.' May this not happen to this great soul! The world of Hindi language and literature would have been less shining, were it not for the invaluable contributions of Master Ramkreet Jugessur to this cause!

पृष्ठ २ का शेष भाग

प्रजां — का अर्थ है — सुसन्तान — पवित्र व्यक्ति जिनके मन पवित्र हो, कर्म पवित्र है, भावनाएँ पवित्र हैं, उनके घर भला कैसे सुसन्तान का आगमन न होगा।

पशू — मनुष्य को जीने के लिए गाय - भैंस, घोड़े आदि की आवश्यकता होती है। साथ ही ये धन का भी प्रतीक है। तो निश्चय ही जो मनुष्य मन, वचन और कर्म से पवित्र हो और यज्ञ करने वाला हो उनके यहाँ पशु और धन की कमी नहीं होती।

कीर्ति — पवित्र जीवन बिताने वाले पर यश की वर्षा होती है। शायद हर किसी के मन में यह भावना उठती होगी कि हम सब यज्ञ तो करते हैं पर क्या ये सब फल हम सब को प्राप्त है?

अथर्ववेद के एक मन्त्र में ईश्वर आदेश देता है — **शुद्धा पूता भवत यज्ञिया सः।** कि शुद्ध-पवित्र होकर यज्ञ के योग्य बनो। आज भौतिक दौड़ इतनी तेज़ है कि इसके पीछे हम अपने देवत्व गुणों को सात्वित्ता की ओर बढ़ने ही नहीं देते। दूसरे शब्दों में उसे जागृत ही नहीं होने देते।

मन और बुद्धि की पवित्रता के लिए आवश्यक है कि हमारा आहार पवित्र हो। आज आहार कितना बिगड़ गया है। क्या इससे (आयुः प्राणं) अर्थात् दीर्घ आयु और प्राण शक्ति की आशा कर सकते हैं?

आज भेष भी कितना बिगड़ता चला जा रहा है। जिस समाज में अश्लीलता की इतनी प्रदर्शनी हो, उस समाज में पवित्रता के बदले तरह-तरह के अपराध कैसे नहीं बढ़ेंगे?

जनता को याद करना चाहिए कि सिर्फ कामना करने से सुख और शान्ति का वातावरण प्राप्त नहीं होता बल्कि इसका निर्माण करना पड़ता है।

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने यज्ञ की परिभाषा समझाते हुए सत्यार्थप्रकाश में लिखते हैं —

यज्ञ उसको कहते हैं कि जिसमें

- विद्वानों का सत्कार हो।
- यथायोग्य शिल्प अर्थात् रसायन जो कि पदार्थ विद्या है उसका उपयोग।
- विद्यादि शुभः गुणों का दान
- अग्निहोत्रादि जिनसे वायु, वृष्टिजल, ओषधि की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुँचाना है, — उसको उत्तम समझता हूँ।

हम यज्ञ के इस अर्थ को अपने देश के परिप्रेक्ष्य से जोड़ना चाहेंगे।

विद्वानों का सत्कार करना अति आवश्यक है। जिस देश और जाति में विद्वानों का सम्मान नहीं होता वह देश सही शब्दों में विकास नहीं कर सकता।

आज हमारे समाज में इतनी छूट दे दी गई है, कि जवानों और विद्यार्थियों में संस्कार के बदले विकार बढ़ते जा रहे हैं। अध्यापक और आचार्यों को भगवान् से भी ऊँचा पद दिया गया है।

कबीरदास ने लिखा है —

**गुरु गोविन्द दोऊँ खड़े, काके लागूँ पाएँ ।
बलिहारी गुरु आपने जो गोविन्द दियो बताय ॥**

आज के कई ऐसे विद्यार्थी गुरु के प्रति इतने अशिष्ट व्यवहार कर रहे हैं जो कभी भी एक शिष्ट समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

आज माता-पिता को अति आवश्यक है कि अपने बच्चों को संस्कारित करें। उनके लिए यही सबसे बड़ा यज्ञ होगा।

दूसरा यथायोग्य शिल्प अर्थात् रसायन एवं पदार्थ विद्या का उपयोग।

आज मोरिशस में वैज्ञानिकों एवं डॉक्टरों की कमी नहीं — जो व्यक्ति अपने इस ज्ञान से जनता का उपकार करता है, वह अपने आप में एक महान् यज्ञ है।

तीसरा विद्यादि शुभ गुणों का दान

यह भी एक महान् यज्ञ है जो हमारे शिक्षक आचार्य, पुरोहित/पुरोहितागण करते हैं।

आज इस अवसर पर मैं उन अवकाश प्राप्त शिक्षकों और विद्वानों से विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा कि अब जो वे कार्य निवृत्त हैं तो समाज के लिए कुछ समय अवश्य निकालें और कुछ लोगों का मार्गदर्शन करने का प्रयत्न करें।

हमारी वैदिक जीवन पद्धति के अनुसार ५० साल के बाद हमें वानप्रस्थी बनना है और इस आश्रम के दो मुख्य उद्देश्य हैं।

- धार्मिक ग्रन्थों का स्वाध्याय करना और
- प्राप्त अनुभव और ज्ञान को बाँटना।

आज हमारे देश में एक बहुत बड़ी शक्ति है वो है हमारे वरिष्ठ नागरिक - (Senior Citizens) हर वरिष्ठ नागरिक यदि अपने ही परिवार में या अपने निकट पड़ोस में कुछ ऐसा काम करे तो हम बहुत से लोगों को पवित्रता अर्थात् याज्ञिक जीवन की ओर विकसित कर सकेंगे।

अतः मन्त्र का अन्तिम उद्देश्य -

यज्ञमानं च वर्धय - अर्थात् अधिक यजमानों की वृद्धि होगी। इससे निश्चित ही देश का वातावरण पवित्र होगा, सुख और शान्ति का विकास होगा और सही शब्दों में नववर्ष की मंगल कामना साकार होगी।

सर्वे भवन्तु सुखिनः ।

ARYODAYE
Arya Sabha Mauritius

1, Maharshi Dayanand St,
Port Louis, Tel: 212-2730,
208-7504, Fax: 210-3778,
Email: aryamu@intnet.mu,
www.aryasabhamauritius.mu

प्रधान सम्पादक: डॉ० उदय नारायण गंगू,
पी.एच.डी., ओ.एस.के., आर्य रत्न
सह सम्पादक: सत्यदेव प्रीतम,
बी.ए., ओ.एस.के., सी.एस.के., आर्य रत्न
सम्पादक मण्डल:

(१) डॉ० जयचन्द लालबिहारी, पी.एच.डी.
(२) श्री बालचन्द तानाकूर, पी.एम.एस.एम,
आर्य भूषण

(३) श्री नरेन्द्र घरा, पी.एम.एस.एम
Printer: BAHADOUR PRINTING LTD.
Ave. St. Vincent de Paul, Les Pailles,
Tel: 208-1317, Fax: 212-9038

विद्यार्थी और विद्यालय

बालचन्द तानाकूर, उपप्रधान, विद्या समिति

विद्यार्थी और विद्यालय में गहरा सम्बन्ध है। विद्यार्थियों के अभाव में विद्यालय टिक नहीं सकता और विद्यालय के बिना विद्यार्थी सुगमता पूर्वक विद्या ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इन दोनों का सम्बन्ध कायम रखने के लिए सुव्यवस्थित शिक्षण एवं अनुभवी शिक्षकों की अति आवश्यकता होती है। एक सुव्यवस्थित विद्यालय और उनके प्रतापी शिक्षकों के प्रभाव से ही प्रभावित होकर छात्रगण अपने घर तथा परिवार को छोड़ कर स्कूल की ओर कदम बढ़ाने के लिए ललायित रहते हैं।

गत वर्षात परीक्षा के बाद हमारे देश के छात्र और शिक्षक गण लम्बी छुट्टी पर थे। विद्यालयों के दरवाज़े बंद पड़े थे। अब इस वर्ष १४ जनवरी से विद्यालयों के फाटक फिर से खुल गए हैं। शिक्षण गतिविधियाँ नियमित रूप से आरम्भ हो गई हैं। अपने परीक्षा फल के आधार पर छात्रगण अपनी अपनी कक्षा में अध्ययन करने लगे हैं। उधर गुरुजन भी अपनी नई वार्षिक योजना के अनुकूल विद्या प्रदान कर रहे हैं। शिक्षण का सिलसिला हमेशा की तरह चालू हो गया है।

हमारे देश के अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा पर पर्याप्त धन खर्च करते हैं। सभी माता-पिता की यही इच्छा होती है कि उनके बच्चे पढ़-लिख कर ज्ञानी बनें। वे विद्वान होकर अपने जीवन में प्रगति करें। हमारी सरकार ने तो सभी छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया है। विकलांग बच्चों को भी शिक्षित करने के लिए खास व्यवस्था की है। हमारी सरकार ने तो बच्चों को १५ वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक कानून भी बनाया है। अतः हर एक अभिभावक का उत्तरदायित्व

है कि वह अपने बच्चों को ज़रूर पाठशाला भेजें।

समस्त अभिभावकों से आग्रह है कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई में केवल धन लगाते न जाएँ, बल्कि बच्चों के अभ्यास कार्यों, दैनिक कार्यक्रमों, व्यवहारों और दिनचर्या पर भी बराबर ध्यान दें ताकि उनके तप, त्याग, परिश्रम और अनुभव की जानकारी प्राप्त होती रहे। ऐसे करने से हम बच्चों की रुचि, तपस्या, ग्रहणशक्ति आदि का पता लगा सकते हैं और उनकी भावी योजना की तैयारी में सहायक हो सकेंगे।

हमारे छात्रों को भी एक तपस्वी, नियन्त्रित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने की अति आवश्यकता है। हम सभी विद्या प्रेमियों से माँग करते हैं कि वे खूब मेहनत करके विद्या ग्रहण करें। अपने अध्यापकों का आदर-सम्मान करें। उनकी आज्ञा का पालन करें। पाठशाला के कायदे कानून के अनुकूल रहें। सभी सहपाठियों से प्रेम बढ़ाकर ज्ञान-विज्ञान हासिल करने में सदा तत्पर रहें। अपने दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। समय का सदुपयोग करें। अनमोल समय को योँहि जाने न दें। आप जितना ही अपने जीवन को तपायेंगे, उतना ही आपका जीवन चमकता जाएगा। सभी सामाजिक संस्थाओं एवं विद्वानों के मध्य में आप का आदर सम्मान होगा और आपके परिवार का नाम रोशन होगा।

हम सभी बच्चों के स्वास्थ्य, सुख-शान्ति और आनन्द के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारी यही मनोकामना है कि आप पूरा साल शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करते रहे और आपकी बुद्धि तीव्रगति से बढ़ती जाए, ताकि आप विद्याधन के स्वामी बनने में सफल हों।

आर्य महा सम्मेलन

- वाह आर्य अग्नि तूने आज विश्व को एक सूत्र में पिरोया है। ऋषि के सपनों को साकार करके दीये की लौ को जलाया है।
- इस आर्य मानस का मैं क्या वर्णन करूँ, यह तो एक शंखनाद है। सभी यहाँ पर आई हुई पुण्य आत्माओं का अभिव्यक्त आह्लाद है।
- इसी नई जागृति को लाने के लिये ये सम्मेलन होते रहते हैं। आपसी प्यार व सम्बन्ध बढ़ाने के लिए कारण बनते रहते हैं।
- इनकी छवि इतनी निराली कि आँखें भी चौंधिया जाए। आचार्यों, महात्माओं व संन्यासियों का आशीर्वाद चार चाँद लगे।
- वैदिक धर्म का यह आकर्षण सब के मन को भाता है। ऋषियों, योगियों की वाणी को गुनगुनाने को जी चाहता है।
- प्रत्येक वर्ष ऐसे सम्मेलन किसी न किसी देश की शोभा बढ़ाते हैं। मिलन के साथ साथ वेद सन्देश की दुंदुभी बजाते हैं।
- आर्य वीरों के लिए प्रेरणा स्रोत है अपनी यज्ञ आहुति देने का अवसर है यह। न जाने कितने दिलों की धुन धड़कन है यह, आने वाली पीढ़ियों के लिए सुन्दर पैगाम दें यह।
- आर्य विद्वानों के व्याख्यान वैदिक परम्पराएँ समझाते हैं। समाज से अन्धकार और कुरीतियों को मिटाते हैं।
- आज धरती पर सारे ब्रह्माण्ड का वैभव है छाया, इसी में आयोजकों ने संतोष पाया। नहीं देखते दुर्गुण किसी के, अपने को आर्य बनाना है, यही सन्देश ऋषिवर का घर घर साथ पहुँचाना है।
- जन मानस में आर्यत्व भाव को इस सम्मेलन से जगाना है। 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्' के आवाहन को साकार हमें बनाना है।
- यही सपना यूँही साकार होता रहे, बुद्धि जीवियों का ऐश्वर्य बढ़ता रहे। 'सुधा' की कामना प्रभु! तुम पूरी करना, लगातार सम्मेलनों को सफल बनाते रहना।

सुधा वर्मा
(पत्नी) विद्यासागर वर्मा - (पूर्व राजदूत)

ओ३म्

सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते ।

Sarveshaameva Daanaanaam Brahmadaanam Vishishyate.

*The charity of teaching Vedas is the best of all charities.
Maharshi Dayanand ka shishya aarsh granthon ka Bhavishya.*

Acharya Satish A. Beetullah Shastree Arya, Mob. No. 7639174

सन् २०१३ का आर्ष ग्रन्थ स्वाध्याय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

आर्ष पाणि में, अनार्ष पानी में

गर्भ से निर्माण-गर्व से निर्वाण का आधार है स्वाध्याय, जिसका शुभारम्भ ब्रह्मचर्य आश्रम से किया जाता है, जो संन्यास आश्रम पर्यन्त चलता रहता है। आर्य सभा मोरिशस के तत्वावधान में एवं प्लेन विलियम्स परिषद् तथा आर्य समाज ओलिये, कात्र-बोर्न और विशेषकर आर्य वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizen) के सहयोग से, आर्ष ग्रन्थ स्वाध्याय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है।

१. ब्रह्मचर्य आश्रम हेतु वेद पाठ - अथर्ववेद का ब्रह्मचर्य सूक्त संस्कृत-हिन्दी-अंग्रेज़ी में अर्थ सहित । पूर्व प्राथमिक (Pre-Primary) से विश्वविद्यालय छात्राओं के लिये, पंचमहायज्ञ, ईश्वरस्तुति स्वस्तिवाचन, व शान्तिकरण का पाठ प्रतियोगिता के लिये दिया जायेगा जो प्रत्येक चार मास में चलती रहेगी ।

२. गृहस्थ आश्रम हेतु वेद पाठ - अथर्ववेद पृथ्वी सूक्त के अतिरिक्त अन्त्येष्टि संस्कार से पूर्व व पश्चात् मृतक गृह पर सत्संगों में, वेद मन्त्र, वाल्मीकि रामायण श्लोक, गीता श्लोक पाठ, विषय अनुकूल सूक्त व अध्याय पर पाठ दिया जायेगा ।

३. वानप्रस्थ आश्रम हेतु वेद-पाठ - चतुर्वेद वेद पाठ के अतिरिक्त आर्ष ग्रन्थों पर प्रति गुरुवार को १०.०० से १२.०० बजे तक आर्य समाज ओलिये, कात्र-बोर्न में विशेष पाठ दिया जायेगा। सत्यार्थ प्रकाशादि यात्राएँ भी आर्य वरिष्ठ नागरिकों द्वारा सम्पन्न की जायेगी ।

४. संन्यास आश्रम जन स्वयं अष्टांग योग प्राचार-प्रसार अपनी सुविधा व देश-काल - परिस्थिति अनुसार सम्पन्न करने की कृपा करें ।

५. आर्ष ग्रन्थ स्वाध्याय प्रशिक्षण के अतिरिक्त वेदानुकूल कार्य निम्न प्रकार से किये जायेंगे - गर्भवती महिलाओं के लिये उनके गृह पर ही प्रति सप्ताह मात्र एक दिन आधा घण्टा गर्भ धारण से लेकर बच्चे के जन्म पर्यन्त विशेष वेद पाठ अर्थ सहित सुनाया जायेगा एवं गर्भवती महिलाओं का भोजन वेदानुकूल बताया जायेगा ।

६. प्रत्येक पूर्णिमा को चतुर्वेद पाठ द्वारा महायज्ञ आम जनता द्वारा आर्य समाज ओलिये कात्र बोर्न में सम्पन्न होता जायेगा। वेदानुकूल सात्विक आहार से सत्कार शुद्ध शाकाहारी भोजन का प्रचार भी होता जायेगा। यह पूर्णिमा महोयज्ञ प्रत्येक जिले में जो समाज सक्रिय नहीं है, वहाँ पर जिले के सक्रिय समाज मिलकर आयोजन करते जायेंगे ।

७. प्रत्येक शनिवार को आर्य सभा मोरिशस में प्रातः ९.३० से १२.३० बजे तक व्रत-स्नातक प्रशिक्षण विशेषकर अठारह वर्ष से ऊपर युवाओं को कर्मकाण्ड विषय पर जैसे वृष्टि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञों के विशेष मन्त्र, तथा श्रावणी आदि अन्य पर्वों के विशेष मन्त्रों का पाठ आर्य पर्व पद्धति पुस्तक के आधार पर दिया जायेगा।

जो सीखे सिखाते चलो, दीये को दीये से जलाते चलो ।

Makar Sankranti : It's Importance

Sookraj Bissessur

From the theological point of view and also from a rational analysis of Hindu religious faith, the rationale behind festivals is the maintenance of congenial relationships within the entire family and society. In fact, festivals are happy occasions that symbolise, reflect and enrich social life in a specific cultural setting.

In India, the variation of seasons indicate maintenance of the food crops. As food supply in India depends on the season(s), some festivals are celebrated to herald seasonal renewals. One such auspicious and unique festival is Makar Sankranti which is normally celebrated in the month of 'Magha' - January.

Makar Sankranti is a festival that traditionally coincides with the beginning of the sun's northward journey (Uttarayan), and falls on or about January (14) according to the solar calendar. A the days of God start with the winter solstice, the very entry of the sun into the orbit of Makara, Makar Sankranti has a special importance and is regarded as very auspicious.

On the confluence of the rivers Ganga, Yamuna and the invisible Saraswati located in (Allahabad), devotees take a dip at the crack of dawn on Makar Sankranti. The use of sesame in savouries is very popular.

On this auspicious occasion, people wear new clothes and devote the whole day in paying visits to friends and relatives. Sankranti is also known as "Khichri Festival" in the northern India. It is a great day when families remember those who have left the fold and assert ties with those who are part of a network of social and economic relations. In Gujrat, there exists a custom of offering gifts to parents, friends and relatives on this day.

Makar Sankranti is celebrated as a harvest festival in Andhra Pradesh and Karnataka. Agricultural products like rice, dholl, maize, peas are prepared and cooked. Clad in fascinating, clean and colourful clothes, men, women and children pay visits to friends and relatives and exchange sweets of jaggery 'gur' and dried coconuts.

Reverence of cow is a main component of this festival. Bulls and cows are properly washed and decorated with beautiful garlands of tinkling bells and flowers. With their horns printed, the bulls and cows are then taken out of the village.

Pongal

Makar Sankranti is also known as 'Pongal' in Tamil Naidu. It takes its very name from the surging of rice in jaggery and boiled milk. As the Pongal surges from the vessel teenagers, children and elders alike cheerfully chant "Pangalo Pongal". Friends and relatives offer to each other customary greetings and blessings. It marks a good and successful harvest. Fresh produce from the fields, namely - vegetables, sugarcane, pumpkins and the 'Vaali tuber' are spread out quite ceremoniously.

The Pongal festivities are spread over four days starting with "Bagi", then comes Pongul, Mattu and Kanum Pongal. "Bani" - is the symbolic 'bonfire' that bids farewell to the tools in the fields, giving goodbye to the old and ushering in the new. On 'Mattu Pongal', the cattle are prettily decorated and prayers are offered. Jallikatu on 'Manju' (bull fight) are also conducted, on the very day in Madurai, Ramanathapuram and other noted areas as well.

Bihu

Fully tucked with the rich lush green vegetation and freshness of the North-East - is the beautiful Assam State - that bursts into a rich riot of multifarious colours on Bihu. The first festival of the year is "Vaisakhi Bihu". It is celebrated on the first three days of Vaisakhi. The main cause of jubilation is two-fold, first, that the month of chaitra everyday of which, is considered unlucky, has expired. Secondly, that is being succeeded by a

month of which everyday is auspicious.

Lohri

In Punjab, the sound spirit of Sankranti, comes alive in 'Lohri' - which is celebrated on the last day of the month of "Pausa" - to mark the end of winter. Groups of youngsters and teenagers go about from house to house, collecting dung and wand for a bonfire at night - which is truly symbolic of a great homage to the sun god. This bonfire, thus also strengthens the bonds of friendship and brotherhood. It' is also an occasion for fun and dancing as the atmosphere reverberates with the heavy beat of "bhangra" - (traditional dance of Punjab). For peasants Lohri - marks the beginning of a New Year because, on this day, the wide division which exists between landowners are settled among themselves and their tillers.

To conclude, it goes without saying that festivals are not just days for feasts and worships. They also act as social cement - which bring people together in total harmony and strengthens brotherhood, love, peace, harmony, mutual respect, amity and mutual understanding. The observance of festivals has always symbolized the fundamental values of life.

धर्म भूषण परीक्षा की पढ़ाई प्रारम्भ हो चुकी है ।

इच्छुक छात्र-छात्राओं को सूचित हो कि हर गुरुवार को १२.३० बजे से ५.०० बजे तक पाई डी.ए.वी डिग्री कॉलिज में धर्म भूषण की परीक्षा की पढ़ाई शुरू हो गई है। यदि छात्र-छात्राएँ प्रथमा, विद्या-वाचस्पति या सिद्धान्त भाष्कर परीक्षा उत्तीर्ण हों तो इस पढ़ाई के लिए अपना आवेदन-पत्र आर्य सभा के दफ्तर में अथवा डी.ए.वी डिग्री कॉलिज, पाई के पते पर भेज सकते हैं ।

नया साल

सीमा अग्रवाल

बदल रहे हैं सप्ताह महीने साल है मगर प्रश्न

क्या समय बदल गया है

नए कैलेंडर पर रेखाएँ

बदलीं

चित्र पुराने हैं

स्याही का राज नये

शब्द लेकिन

जाने पहचाने हैं

सैनिक, तिथि पत्रों की बदली

और आखिर क्या बदल गया !

मजबूरी की आह

अभी तक

भिंची हुई है मुट्ठी में

नम आँखों की चाह

अभी तलक बंद

पुरानी चिट्ठी में

कंठों के स्वर बदले पर

क्या गीत पुराना बदल गया ???

मोह-ग्रस्त बीमार

रिवाज़ों के हम

अब तक साथ चले

आँख खुली है

ना कथनी की

न करनी के दिन बदले

बदलो तुम और बदलें हम

तो लगे कि हाँ कुछ बदल गया ।

कर्क संक्रान्ति

खेमराज लीला

ऐसे तो रुढ़ि तौर से १४ जनवरी को मकर संक्रान्ति मनाते हैं। वास्तव में २२ दिसम्बर को जब सूर्य मकर रेखा को स्पर्श करके उत्तरायण की ओर गति करने लगता है तो उस दिन को मकर संक्रान्ति मनाना चाहिए। २२ दिसम्बर को पौष महीना आरम्भ होता है। पौष महीने की संक्रान्ति को मकर संक्रान्ति कहते हैं। २१ जनवरी से माघ महीना आरम्भ होता है इसे कुम्भ संक्रान्ति कहते हैं। इसी प्रकार मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु संक्रान्ति को समझिये। इसका सम्बन्ध ज्योतिष विद्या से है। दिन, महीना, अयण, वर्ष, युग, मन्वन्तर, ब्रह्मदिन और ब्रह्मरात यूरोप-अरब वालों का आविष्कार नहीं। यह आर्यों की ज्योतिष विद्या की देन है। आर्यों की शिक्षा पद्धति अर्थात् पठन-पाठन विधि में शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त छन्द के बाद ज्योतिष की पढ़ाई होती थी। मैं ने भाई सुखदेव विष्णुदयाल की जन्म शताब्दी के अवसर पर लगभग तीन हजार 'बाल शिक्षा' की प्रतियाँ दान के रूप में बाँटीं पर दुर्भाग्य से आर्य समाज की बैठकों में इसकी पढ़ाई नहीं होती। इसका कारण क्या है? इसे हमारी विद्या समिति वाले बता सकते हैं !

बाल शिक्षा में चार वेदों के नामों के बाद वेदांगों में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त छन्द और ज्योतिष के नाम आते हैं। आज से दो हजार साल पहले अरब और यूरोप वालों को पढ़ना-लिखना आता न था। हम इसके विस्तार में न जा कर इतना ही लिख देते हैं कि बाईबल में दिन और महीने के नाम तक नहीं। इनको दशमलव और शून्य Zero लिखने का ज्ञान न था रोमन लोग I, V, X आदि गणित के लिए लिखते थे। ऋषि दयानन्द जी ने लिखा है कि सभी विद्याओं की जननी वेद है। वेदों में सभी विद्याएँ बीज रूप में हैं। हम सप्रमाण इसे सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी भाषा और भौतिक विज्ञान पर घमण्ड करने वाले हमलावर उपनिवेशवादी अंग्रेज-फ्रांसिसियों ने बोलना कैसे सीखा? क्योंकि जब तक कोई बोलेगा नहीं तो कोई सुन नहीं सकता और जो सुन नहीं सकता वह बोल नहीं सकता। जो बहरा है वह गुंगा भी है। पाश्चात्य की पढ़ाई में रटाई है, जिसमें मनन की बात नहीं। उनकी पढ़ाई में ज्ञानेन्द्रियाँ, तनमात्र, मन अतःकरण आदि की बातें नहीं। इनकी भाषा के अक्षर, शब्द, नाम, दिन, महीना आदि सब नकली। इनको खुद पता नहीं कि क्यों but और put हो जाता है।